

SOM DISTILLERIES AND BREWERIES LIMITED

Registered Office: I-A, Zee Plaza, Arjun Nagar, Safdarjung Enclave, Kamal Cinema Road, New Delhi - 110029
Phone: +91-11-26169909, 26169712 Fax: +91-11-26195897

Corporate Office: SOM House, 23, Zone II, M.P. Nagar, Bhopal, Madhya Pradesh – 462011
Phone: +91-755-4278827, 4271271 Fax: +91-755-2557470

Email : compliance@somindia.com **Website:** www.somindia.com

CIN : L74899DL1993PLC052787

(BSE : 507514, NSE : SDBL)



SDBL/BSE/NSE/2023

06.09.2023

To

<p>The Manager, Listing Department, NATIONAL STOCK EXCHANGE OF INDIA LIMITED 'Exchange Plaza' C-1, Block G, Bandra-Kurla Complex, Bandra (E), Mumbai-400 051. cmlist@nse.co.in Security ID: SDBL</p>	<p>Dy. General Manager, Department of Corporate Services, BSE LIMITED, First Floor, P.J. Towers, Dalal Street, Fort, Mumbai – 400001. corp.compliance@bseindia.com Security ID: 507514</p>
---	--

SUB.: NEWSPAPERS ADVERTISEMENT - NOTICE OF 30TH ANNUAL GENERAL MEETING AND E-VOTING INFORMATION

Dear Sir/Madam,

In terms of Regulation 30 and Regulation 47 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, please find enclosed herewith advertisements published in newspapers i.e., Notice of 30th Annual General Meeting and e-voting information.

The above-mentioned advertisement is published in Business Standard Hindi and Business Standard English, newspapers on September 6, 2023.

The same has also been uploaded on the Company's website www.somindia.com.

This is for your information and records.

For Som Distilleries and Breweries Limited

Om Prakash Singh
Company Secretary and Compliance Officer

CENTRUM Home Loans
 Corporate & Registered Office :Unit No. 801, Centre House, CST Road, Vidyavagri Marg, Kalina, Santacruz (East), Mumbai - 400098, CIN No. U05922MH2016PLC273826

Public Notice - Shifting of Centrum Housing Finance Limited Branch Office - Jabalpur

General Public and Customers are hereby informed that the **Jabalpur Branch of Centrum Housing Finance Limited** which is presently functioning at **Plot No. 849C, Manas Nandini Tower, 1st Floor, Opposite Manas Bhawan, Wright Town, Jabalpur - 482002, Madhya Pradesh** will be relocated/shifting at **H. No. 821, In front of D.N. Jain College, Gol Bazar, Jabalpur - 482002, Madhya Pradesh, w.e.f. December 07, 2023.**

Place : **JABALPUR** Authorized Officer,
 Date: **06.09.2023** Centrum Housing Finance Limited

SANCHAY FINVEST LIMITED
 CIN: L67120MP1991PLC006650
 Regd. Office Add- 209, RAJANI BHUVAN, 569M.G. ROAD INDORE MP 452001 IN
 E-mail: sanchay@gmail.com Website: www.sanchayinvest.in, Tel: 2620 5500, 2671 6288

NOTICE OF 32nd ANNUAL GENERAL MEETING

Notice is hereby given that the 32nd Annual General Meeting ("AGM") of the Company will be held on **Thursday, 28th September, 2023** at 12.30 pm at the registered office of the company i.e. 209, Rajani Bhuvan, 569 M.G. Road, Indore Madhya Pradesh, 452001 to transact the businesses, as set forth in the notice of the meeting.

In compliance with the Ministry of Corporate Affairs ("MCA") Circular No. 20/2020 dated May 06, 2020 and Circular No. 02/2021 dated January 13, 2021 read with Circular Nos. 14/2020 and 17/2020 dated April 08, 2020 and April 13, 2020 respectively (collectively referred to as "MCA Circulars") and Securities and Exchange Board of India ("SEBI") vide its Circular No. SEBI/HO/CFD/CMD2/CIR/P/2021/11 dated January 15, 2021 (collectively referred to as "SEBI Circulars"), the Notice of AGM along with Annual Report 2022-23 has been sent in electronic mode to Members whose email IDs are registered with the Company or the Depository Participant(s). The copy of the Notice of AGM and Annual Report will also be available on the website of the Company at www.sanchayinvest.in and on the website of the Stock Exchange i.e., BSE Limited at www.bseindia.com and on the CDNL website at www.evotingindia.com.

In compliance with Section 108 of the Companies Act, 2013 read with Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014, as amended from time to time, Regulation 44 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 ("Listing Regulations") and Secretarial Standard - 2 on General Meetings issued by The Institute of Company Secretaries of India, the Company is pleased to provide the facility to Members to exercise their right to vote by electronic means on resolutions proposed to be passed at AGM. The Company has engaged CDNL for providing facility for voting through remote E-Voting and e-Voting during the AGM. Following are the related information:

a) Day, Date and time of commencement of remote E-Voting	Monday, September 25, 2023 at 9:00 a.m. (IST)
b) Day, Date and time of end of remote e-Voting	Wednesday, September 27, 2023 At 5:00 p.m. (IST)
c) Cut-off Date	Thursday, September 21, 2023
d) Any person who acquires shares of the Company and becomes a Member of the Company after the dispatch of AGM Notice, holds shares as on the Cut-off Date i.e., Thursday, September 21, 2023 should follow the instructions for e-Voting as mentioned in the AGM Notice.	
e) Members attending the meeting who have not cast their vote through remote e-Voting shall be able to vote at AGM by Postal Ballot.	
f) The Members are requested to note that:	
1. Remote e-Voting module shall be disabled by CDNL for voting after 5.00 PM, Wednesday, September 27, 2023; and,	
2. The Members who have already cast their vote through remote e-Voting may attend the AGM but shall NOT be entitled to cast their vote again.	

Members will have an opportunity to cast their vote remotely or during the AGM on the businesses as set forth in the Notice of the AGM through the electronic voting system. The manner of voting remotely or during the AGM for Members holding shares in dematerialized mode, physical mode and who have not registered their email addresses has been provided in the Notice convening the AGM.

Shareholders holding shares in physical form and dematerialized form, can register their E-mail ID by clicking on the link www.evotingindia.com provided by Anit Consultancy Pvt. Limited, Registrar & Share Transfer Agent of the Company, 80, Electronic Complex, Pashchimputra, Indore (MP)-452010. The Shareholders are requested to provide details such as Name, Photo Number, E-mail ID along with phone number.

The Board of Directors has appointed M/s Ramesh Chandra Mehra & Associates, Company Secretary in Practices having Membership No.: FCS 5477 and Certificates of Practice No.: 3957, as a Scrutinizer to scrutinize the voting process in a fair and transparent manner.

The Register of Members and the Share Transfer books of the Company will remain closed from Friday, 22nd September, 2023 to Thursday, 28th September, 2023 (both days inclusive). For any query regarding attending the AGM or e-Voting related during the AGM, Members may send a request at helpdesk.evoting@cdnl.com / 1800225583 or contact Mr. Rakesh Dahi (022-23058542) or CDNL or Mr. Nishu Kumar (022-23058738) And contact 0731-4065799 Mr. Saurabh Maheshwar or e-mail to compliance@anitindia.com our RTA and at sanchay@gmail.com.

Members are requested to carefully read all the notes set out in the Notice of AGM and in particular instructions for joining the AGM manner of casting vote through remote e-Voting during the AGM etc.

This Notice is being issued for the information and benefit of the Members of the Company in compliance with the MCA and the SEBI Circular(s).

For **SANCHAY FINVEST LIMITED**
 Sd/-
 Nareesh Kumar Nandani Sharma
 Managing Director
 DIN: 00794218

Place: Indore
 Date: September 05, 2023

SOM DISTILLERIES AND BREWERIES LTD
 Registered Office: I-A, Zee Plaza, Arjun Nagar, Safdarjung Enclave, Karnal Cinema Road, New Delhi - 110029 Phone: +91 11 26189900; 26189712 Fax: +91 11 26189897
 Corporate Office: SOM House, 23, Zone II, M.P. Nagar, Bhopal (M.P.)-462011
 Phone: +91 766 4278827, 4271271 Fax: +91 766 2657470 Email: compliance@somindia.com
 Website: www.somindia.com CIN : L17489DL1983PLC052787 (BSE : 507514, NSE : SDBL)

NOTICE OF 30th ANNUAL GENERAL MEETING AND E-VOTING INFORMATION

Notice is hereby given that the 30th Annual General Meeting (AGM) of the members of the Som Distilleries and Breweries Limited will be held on **Wednesday, the 27th day of September 2023** at 12:30 P.M. through Video Conferencing (VC)/ Other Audio-Visual Means (OAVM) to transact the businesses, as set out in the Notice convening the AGM. The Company has already commenced dispatch of the Annual Report for financial year 2022-23 along with the Notice convening 30th AGM on September 5, 2023, through electronic mode to the Members whose email addresses were registered with the Company / Depositories in accordance with the Circular issued by the MCA Circular No.20/2020 dated May 5, 2020 read with Circulars No.14/2020 dated April 8, 2020, Circular No. 17/2020 dated April 13, 2020 and Circular No. 02/2021 dated January 13, 2021 General Circular No. 21/2021 dated December 14, 2021, General Circular No. 02/2022 dated December 15, 2022, Circular No. 10/2022 dated December 28, 2022 and SEBI Circular No. SEBI/HO/ODHS/DHDS-RACPD/1/CI/R/2023/001 dated January 5, 2023, SEBI Circular No. SEBI/HO/ODHS/CI/R/2022/0063 dated May 13, 2022 read with Circular No. SEBI/HO/CFD/CMD2/CIR/P/2021/11 dated January 15, 2021, Circular No. SEBI/HO/CFD/CMD1/CI/R/P/2020/79 dated May 12, 2020 and such other relevant Circulars. The Annual Report along with the Notice convening the AGM is available on the website of the Company at www.somindia.com, the websites of BSE & NSE at www.bseindia.com & www.nseindia.com and on the website of NSDL at www.evotingindia.com.

Notice is also hereby given that pursuant to the provisions of Section 91 of the Companies Act, 2013 ("Act") and the applicable rules framed thereunder that the Register of Members and Share Transfer Books of the Company will remain closed from **Thursday, September 21, 2023 to Wednesday, September 27, 2023** (both days inclusive) for the purpose of 30th AGM of the Company.

Pursuant to the provisions of Section 108 of the Act and Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014, as amended and Regulation 44 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, the Members are provided with the facility to cast their votes on all resolutions as set forth in the Notice convening the AGM using remote e-voting (prior to AGM) or e-voting (during the AGM) ("e-voting") provided by NSDL. A person, whose name is recorded in the register of members or in the register of beneficial owners maintained by the depositories as on the **Wednesday, September 20, 2023** ("cut-off date") only shall be entitled to avail the facility of e-voting. The voting rights of Members shall be in proportion to the equity shares held by them in the paid-up equity share capital of the Company as on cut-off date. For detailed instructions on attending the AGM through VC/OAVM, members/shareholders are requested to go through the Notice of AGM.

The Members are hereby informed that:

- the "remote e-voting" period commences on (Sunday) 24.09.2023 (IST 9:00 am) and ends on (Tuesday) 26.09.2023 (IST 5:00 pm). Member may note that remote e-voting shall not be allowed beyond the above said period.
- Any person, who acquires shares of the Company and becomes a Member of the Company after the Notice has been sent electronically by the Company, and holds shares as on the cut-off date: may obtain the login ID and password by sending a request to evoting@nsdl.co.in. However, if he/she is already registered with NSDL for remote e-voting, he/she can use his/her existing User ID and password for casting the votes.
- Members who have cast their vote by remote e-voting prior to the AGM may attend/participate in the AGM through VC/OAVM but shall not be entitled to cast their vote again.
- Members may access the NSDL e-voting system at the web link: <https://www.evotingindia.com> under shareholder/members login. The same link is valid for joining the AGM on the meeting day. The detailed instructions for the remote e-voting process, joining the AGM and e-voting during the AGM are given in the Notice of the AGM.
- Members are permitted to join the AGM through VC/OAVM, 15 minutes before the scheduled time of commencement of the meeting and upto 15 minutes after such scheduled time.
- Those members whose e-mail ids are not registered with the depositories for obtaining login credentials for e-voting are requested to send required details and documents as described in the AGM Notice to Company's e-mail ID compliance@somindia.com or RTA e-mail ID investor@somindia.com.
- The documents referred to in the AGM notice are available for inspection. Members may write to the Company's e-mail ID compliance@somindia.com.
- Mr. Neelash Jain, Practicing Company Secretary (ICS) Membership No. FCS 6436) has been appointed as the Scrutinizer to scrutinize the "remote e-voting" (prior to AGM) or e-voting (during the AGM), in a fair and transparent manner.
- The Results declared along with the report of the Scrutinizer shall be placed on the website of the Company at www.somindia.com and on the website of NSDL www.evotingindia.com immediately after the declaration of result by the Chairman or a person authorized by him in writing.
- Shareholders who would like to express their views/questions during the meeting may register themselves as a speaker and may send their queries and request mentioning their name, demat account number/folio number, email ID, mobile number at compliance@somindia.com or before **Wednesday, September 20, 2023 15:00 pm**.

In case of any queries, you may refer the Frequently Asked Questions (FAQs) for Shareholders and e-voting user manual for Shareholders available at the download section of www.evotingindia.com or call on toll free no.: 1800 1020 990 and 1800 22 44 30 or send a request at evoting@nsdl.co.in.

By Order of the Board
 For Som Distilleries and Breweries Limited
 Sd/-
 Nakul Kam Sethi
 DIN: 08512548
 (Director)

Date: 05.09.2023
 Place: Bhopal

Semac Consultants Limited
 (Formerly known as Revathi Equipment Limited)
 Registered Office: Pollachi Road, Malumachampatti Post, Coimbatore - 641 050 Phone: +91-4226655111
 CIN: L29120TZ1977PLC000780

NOTICE

Notice is hereby given that the **46th Annual General Meeting (AGM)** of the Members of the Company will be held on **Wednesday the 27th September, 2023** at 11:30 AM at the Registered Office of the Company at Pollachi Road, Malumachampatti Post, Coimbatore - 641 050 to transact the Ordinary and Special business as set out in the Notice of the AGM dated 29th August 2023.

The Notice of the 46th Annual General Meeting of the Members along with the Annual Report for the financial year 2022-23 and Attendance Slip Cum Proxy Form of the Company has been sent to all members whose names appeared in the Register of Members / Register of Beneficial owners as on close of the business hours 25th August, 2023 maintained by the Depository Participants (DPs) /Company/ Registrar and Share Transfer Agent.

The Notice of the 46th Annual General Meeting of the Members along with the Annual Report for the financial year 2022-23 and Attendance Slip Cum Proxy Form of the Company has been despatched by Speed Post or Registered Post or Courier to the registered addresses of members whose email ID is not available and through Electronic Mode to the members who have registered their email-id with the Company/ Depository Participant. The despatch of these documents has been completed on 04th September 2023.

The Notice of the ensuing AGM along with the Annual Report are also available on the Company's website at <https://www.semacconsultants.com/> and at the website of the Stock exchange i.e. BSE Limited at www.bseindia.com and at National Stock Exchange of India Limited at www.nseindia.com and on the website of NSDL at www.evotingindia.com.

All the documents referred in the notice are available at the registered office for inspection during normal business hours 10.00 am to 4.00 pm on all working days till the date of the said AGM.

A person whose name is recorded in the register of members or in the register of beneficial owners maintained by the depositories as on the cut-off date i.e. 20th September, 2023 only shall be entitled to avail the facility of remote e-voting or voting during the AGM.

The Company has also offered e-voting facility to the members in accordance with the provisions of Section 108 of the Companies Act 2013 read with Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rule 2014 and Regulation 44 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The Company is providing electronic voting (remote e-voting) facility provided by Link Intime India Private Limited (LIPL) to its members through their "InstaVote" website. Members are requested to carefully read the instructions printed for voting through e-voting on the AGM Notice.

1. Date of completion of dispatch of Notice/ Annual Report	04th September 2023
2. Date and time of commencement of remote e-voting	24th September 2023 at 9.00 A.M.
3. Date and time of end of remote e-Voting Remote e-voting will not be allowed be and this date and time	26th September 2023 at 5.00 PM
4. Cut-off date of determining the members eligible for e-voting	20th September, 2023

In case any Persons become members of the Company after the despatch of AGM notice and hold shares as on cut-off date of 20th September 2023, may follow the detailed instructions given in the AGM Notice for accessing the e-voting platform.

The remote e-voting module shall not be allowed beyond 05.00 p.m. on 26th September 2023 and the same may be disabled by LIPL for voting thereafter.

The facility for voting through ballot paper shall be made available at the AGM. Any Member, who has already exercised his votes through remote e-voting, may attend the Meeting but is prohibited to vote at the Meeting and his/her vote, if any, cast at the Meeting shall be treated as invalid.

Shareholders facing any technical issue in login or e-voting may contact Link Intime INSTAVOTE helpdesk by sending a request at enquiries@linkintime.com or contact on: Tel: 022 - 4918 6000.

The Company has appointed Sri. M D Selvaraj, FCS of MDS & Associates, Company Secretaries in Practice, Coimbatore as the Scrutinizer to scrutinize the remote e-voting and voting at the meeting in a fair and transparent manner. The result of voting will be announced by the company in its website <https://www.semacconsultants.com/> and on the website of Link Intime India Private Limited (LIPL) and also will be intimated to BSE Limited and National Stock Exchange of India Limited. This public notice is also available to the Company's website viz. <https://www.semacconsultants.com/> and in the website of LIPL viz. www.evotingindia.com and on the website of BSE Limited and National Stock Exchange of India Limited where the shares of the Company are listed.

Notice is hereby given that the Register of Members and Share Transfer Books of the Company will remain closed from Thursday, 21st September 2023 to Wednesday, 27th September 2023 (both days inclusive) for AGM.

For Semac Consultants Limited
 (Formerly known as Revathi Equipment Limited)
 Sd/-
 Akriti Gupta
 Company Secretary & Compliance Officer

Date: 05th September 2023
 Place: New Delhi

EQUITAS SMALL FINANCE BANK LTD
 (FORMERLY KNOWN AS EQUITAS FINANCE LTD)
 Corporate Office: No.769, Spencer Plaza, 4th Floor, Phase-II, Anna Salai, Chennai, TN - 600 002
POSSESSION NOTICE (U/s. Rule 6 (1) - for immovable property)

Whereas the undersigned being the Authorized Officer of M/s. Equitas Small Finance Bank Limited, under the Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 (S&REI Act) and in exercise of powers conferred under section 13(12) read with Rule 31 of the Securitisation and Enforcement of Security Interest Act, 2002, issued a Demand Notice calling upon the below mentioned Borrowers to repay the total outstanding amount mentioned in the notice being within 60 days from the date of receipt of the said notice. Since the below mentioned Borrowers having failed to repay the below stated amount within the stipulated time, notice is hereby given to the below mentioned borrowers and the public in general that, the undersigned has taken possession of the property described herein below in exercise of powers conferred on him under Sub-Section (4) of Section 13 of the said Act read with Rule 8 of the Security Interest Enforcement Rules, 2002. The Borrowers in particular and the public in general are hereby cautioned not to deal with the schedule mentioned properties and any dealings with the properties will be subject to the charge of M/s. Equitas Small Finance Bank Limited and further interest and other charges thereon." The Borrower's attention is invited to provisions of sub-section (8) of section 13 of the Act, in respect of time available, to redeem the secured assets."

Name of the Borrower(s) / Guarantor(s)	Description of Secured Asset (Immovable Property)	Demand Notice Date & Amount	Date of Possession
Branch : ANAND Nagar LAN No: SENSANDNR032022 1. Mr. Hira Lal Ahirwar 2. Mrs. Murni Bai	All That Piece and Parcel of land and Plot/Residential House Situated at Plot No. 01, Dwaraka Nagar, Nichia Chola, Nagar Nigam Ward No.-37, Tehsil-Huzur, Bhopal and District-Bhopal, MP. Total AD -measuring area up-to 20 x 34 = 680 Sq. Ft. North by: Colony Road 15 Feet Wide, South by: Property Hariom Prajapati, East by: Other Plot, West by: Property savanya Ji Parwar Wali. Measurement: 20 x 34 = 680 sq. ft. Situated at within the Sub-Registration District of Bhopal and Registration District of BHOPLA.	09-05-2023 & Rs. 12484534	29-08-2023
Branch : Mp -Ashoknagar LAN No: SEMPASIK0196291 1. MR.MAHENDRA PRATAP SINGH YADAV 2. MRS.MIRA BAI YADAV	All the piece and parcel of land along with building situated at - Village Vasakhedi, Vrandawan Green City Colony, P.H.No.22, Circle Ashok Nagar, Gram Panchayat Kolia, Tehsil and District Ashok Nagar (M.P.) Total AD Measuring of Area IS - 1000 Sq.Ft (92.93 Sq.Mtr), North by: Road, South by: Plot No.08 and 09, East by: Plot No. 05, West by: Plot No.03. Measurement: Total AD Measuring of Area IS-1000Sq.Ft (92.93 Sq.Mtr). Situated at within the Sub-Registration District of Ashoknagar and Registration District of Ashoknagar.	02-06-2023 & Rs. 177680-	04-09-2023

Place : Bhopal
 Date : 06-09-2023

Authorized Officer,
 Equitas Small Finance Bank Ltd

Chemcon Speciality Chemicals Limited
 CIN: L24231GJ1988PLC011652
 Regd. Office: Block No. 355, Manjusr Kuppud Road, Village: Manjusr, Taluka: Savli, Vadodara - 391775.
 Tel: 0265 - 2981195 | Website: www.cscpl.com | Email: investor.relations@cscpl.com

NOTICE OF 34th ANNUAL GENERAL MEETING AND E-VOTING INFORMATION

NOTICE is hereby given that the 34th (Thirty-fourth) Annual General Meeting (AGM) of the members of Chemcon Speciality Chemicals Limited (the Company) will be held on **Thursday, September 28, 2023**, at 11:30 a.m. (IST) through Video Conferencing (VC)/Other Audio-Visual Means (OAVM) in compliance with the applicable provisions of the Companies Act, 2013 and the rules made thereunder and the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 ("Listing Regulations") read with MCA Circular No. 14/2020 dated 8th April, 2020, Circular No. 17/2020 dated 13th April, 2020, Circular No. 20/2020 dated 5th May, 2020, and subsequent circulars issued in this regard, the latest being 10/2022 dated December 28, 2022 (MCA Circulars) and Circular No. SEBI/HO/CFD/CMD1/CI/R/P/2020/79 and SEBI/HO/CFD/POD-2/P/CI/R/2023/4 dated May 12, 2020 and January 5, 2023 respectively, issued by the Securities and Exchange Board of India (SEBI Circular), to transact the businesses as set out in the Notice of AGM.

In accordance with the aforesaid circulars, the notice of the AGM along with the Annual Report for the Financial Year 2022-23, has been sent through electronic mode only to those members whose e-mail addresses are registered with the Company/ Depositories. The electronic dispatch of Annual Report to Members has been completed on September 5, 2023. The notice of AGM along with the Annual Report is also available on the Company's website (www.cscpl.com), Stock Exchanges website - BSE Limited (www.bseindia.com) & National Stock Exchange of India Limited (www.nseindia.com) and the Notice of AGM shall also be available on the website of agency for providing the Remote e-voting facility i.e. NSDL (www.evotingindia.com).

The Company is providing to its members, the facility to cast their vote electronically on all resolutions which are set out in the Notice of AGM. The Company has engaged the services of NSDL to provide the e-voting facility to the members. The remote e-voting period commences on Sunday, September 24, 2023, at 09:00 A.M. and ends on Wednesday, September 27, 2023, at 05:00 P.M. The remote e-voting shall be disabled by NSDL thereafter and the remote e-voting shall not be allowed beyond the said date and time.

A person whose name is registered in the Register of Members or in the Register of Beneficial Owners maintained by the Depositories as on the cut-off date i.e. Thursday, September 21, 2023, only shall be entitled to avail the facility of remote e-voting and/or for participation at AGM and vote through e-voting system available during the AGM. The Members who will be present during the AGM through VC/OAVM facility and have not cast their vote on the resolutions through remote e-voting and are otherwise not barred from doing so, shall be eligible to vote through e-voting system during the AGM. Members who have cast their vote through remote e-voting may also attend the AGM but shall not be entitled to cast their vote again.

The members who are holding shares in physical form or who have not registered their email addresses with the Company/Depositories and the person who has acquired shares and become the members of the Company after the dispatch of notice and holding shares as of the cut-off date may download the Notice of AGM and follow the procedure for remote e-voting, attending the AGM and voting at the AGM as mentioned in the notice of AGM.

Those Members, whose email address is not registered with the Company or with their respective Depository Participant/s can get their email address registered by following the steps as given below:

- For Members holding shares in physical form, please send scan copy of a signed request letter mentioning your folio number, complete address, email address to be registered along with scanned share certificate (front and back), self-attested copy of the PAN and self-attested scanned copy of address proof, by email to the Company's email address at: investor.relations@cscpl.com.
- For the Members holding shares in demat form, please update your email address through your respective Depository Participant/s.

All grievances connected with the facility for voting by electronic means can contact Ms. Pallavi Mhatre at evoting@nsdl.co.in or call at: 022 - 4886 7000 and 022 - 2499 7000.

Helpdesk for Individual Shareholders holding securities in demat mode for any technical issues related to login through Depository i.e. CDNL and NSDL:

Login type	Helpdesk details
Individual Shareholders holding securities in Demat mode with CDNL	Members facing any technical issue in login can contact CDNL helpdesk by sending a request at helpdesk.evoting@cdnlindia.com or contact at toll free no. 1800 22 55 33
Individual Shareholders holding securities in Demat mode with NSDL	Members facing any technical issue in login can contact NSDL helpdesk by sending a request at evoting@nsdl.co.in or call at 022 - 4886 7000 and 022 - 2499 7000

For Chemcon Speciality Chemicals Limited
 Sd/-
 Shahikumar Kapatel
 Company Secretary & Compliance Officer

Place: Vadodara
 Date: September 5, 2023

Cent Bank Home Finance Limited
 Registered Office : Bhopal Corporate Office : Mumbai
 Subsidiary of Central Bank of India

NOTICE UNDER SECTION 13(2), READ WITH SECTION 13(8) AND 13(13) OF SARFAESI ACT, 2002 TO BE PUBLISHED IN NEWS PAPER WHEN THE SAME IS RETURNED UNDELIVERED REFUSE TO ACCEPT AND ACKNOWLEDGE

A notice is hereby given that the following Borrower/Co-borrower and Guarantors have defaulted in the repayment of principal and interest of the loans facility obtained by them from the **Cent Bank Home Finance Limited** and the loans have been classified as Non Performing Assets (NPA). The notices were issued to them under Section 13(2) of Securitization and Re-construction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act 2002 on their last known addresses. We have indicated our intention of taking possession of mortgaged Property owned by following Borrowers/ Guarantors as per section 13(4) of the Act in case of your failure to pay the amount mentioned below within **60 days**. Details are hereunder.

S. No	Name of the Borrower/ Co-Borrower and Guarantor	Description of Mortgaged Property	Date of Notice Date of NPA	Outstanding Amount as on Date of NPA
01.	1. Mr. Ram Babu Dangi S/o Mr. Udham Singh Dangi, 2. Mrs. Tara Thakur W/o Mr. Ram Babu Dangi Residential Address : Flat No. C-115, HIG Fourth Floor, Valinath Dham Lambakheda, Bhopal (M.P) 462038 Home Lone No. 0020301000068 & LAP Lone No. 0020302000064	Flat No. C- 115 HIG Fourth Floor, Block - C, Valinath Dham, Part of Kh. No. 41/1, 42-124, 14/39/4/ Jha, 40/2, 308/39/1/10 Village Lambakheda Ph. No. 6/10 Tehsil Huzur, Dist Bhopal. M.P. Super Built-up Area : 958 Sq. Ft., Boundaries : East : Other Block, West : Unit No. 114, North : Road, South : Unit No. 116, Property in the name of Mrs. Tara Thakur W/o Mr. Ram Babu Thakur	19.08.2023 08.08.2023	15,53,522/- + Interest and other charges

The steps are being taken for substituted service of notice. The above Borrower/Co-borrower and Guarantor (s) (wherever applicable) are hereby called upon to make payment of outstanding amount within 60 days from the date of publication of this notice, failing which further steps will be taken after expiry of 60 days from the date of this notice under sub-section (4) of Section 13 of Securitization and Re-construction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002.

Place : Bhopal, Date: 05.09.2023 Authorized Officer, Cent Bank Home Finance Ltd., Bhopal

MUTHOOT HOUSING FINANCE COMPANY LIMITED
 Registered Office: TC No.14/2074-7, Muthoot Centre, Punnen Road, Thiruvananthapuram - 695 034, Corporate Office: 12/A 01, 13th Floor, Parinee Crescenzo, Plot No. C38 & C39, Bandra Kurla Complex-G Block (East), Mumbai-400051 Email ID: authorised.officer@muthoot.com.

DEMAND NOTICE
 Under Section 13(2) of The Securitisation And Reconstruction of Financial Assets And Enforcement of Security Interest Act, 2002

Whereas the undersigned is the Authorised officer of Muthoot Housing Finance Company Ltd. ("MHFC") under Securitisation And Reconstruction of Financial Assets And Enforcement of Security Interest Act, 2002 and in exercise of powers conferred under Section 13(12) read with Rule 3 of Security Interest (Enforcement) Rules, 2002, issued Demand Notices under Section 13(2) of the said Act, calling upon the following Borrower(s), Co-Borrower(s), Guarantor(s) to discharge in full their liability to the Company by making payment of entire outstanding including up to date interest, cost and charges within 60 days from the date of respective Notices issued and the publication of the Notice as given below and by way of alternate service upon you, As security for due repayment of the loan, the following Secured Asset (s) have been mortgaged to MHFC by the said Borrower(s), Co-Borrower(s), Guarantor(s) respectively.

Sr. No	Name of Borrower/s & LAN	Date of NPA	Date of Demand notice	Total O/s Amount (Rs.) Future Interest Applicable
1.	Loan Account No. 18101079266 1. Hari Singh Rajput, 2. Devendra Rajput, 3. Saroj Singh Rajput	29-Jul-2023	28-Aug-2023	Rs.6,94,616/- (Rupees Six Lakhs Ninety Four Thousand Six Hundred Sixteen Only) As on 08-Aug-2023

Description of Secured Asset(s) /Immovable Property (ies) - ALL THAT PART AND PARCEL OF THE PROPERTY BEARING PLOT NO. A - 04, WHICH IS A PART OF KHASRA NO - 72, 73, 74/1, (AS PER NAMANTRAN PANI) 72/1/1/1, 73, 74), SITUATED AT RING GARDEN COLONY, GRAM - KAROND KALAN, PATWARI HALKA NO - 21, R.N.M. - 05, VIKAS KHAND - FANDA, TEHSIL - HUZUR, DISTRICT - BHOPAL UNDER THE BOUNDARIES OF NAGAR NIGAM WARD NO - 79, BHOPAL, MADHYA PRADESH - 462010, ADMEASURING 450 SQUARE FEET, BOUNDARY OF PLOT ARE - EAST - PLOT NO 32, WEST - 25 FEET WIDE ROAD, NORTH - PLOT NO - 05, SOUTH - PLOT NO-03, MEASUREMENT: THE SIZE OF THE ABOVE SAID PLOT IS 15'-0" X 30'-0" = 450 SQ FEET L E 41.82 SQ METERS

If the said Borrower, Co-Borrower(s) & Guarantor(s) fails to make payment to MHFC as aforesaid, MHFC shall be entitled to take possession of the secured asset mentioned above and shall take such other actions as is available to the Company in law, entirely at the risks, cost and consequences of the borrowers.

The said Borrower(s), Co-Borrower(s) & Guarantor(s) are prohibited under the provision of sub section (13) of section 13 of SARFAESI Act to transfer the aforesaid Secured Asset(s), whether by way of sale, lease or otherwise referred to in the notice without prior consent of MHFC.

Place: Madhya Pradesh Date: 06 September, 2023 Sd/- Authorised Officer - For Muthoot Housing Finance Company Limited

OSBI State Bank of India
 Branch-SARB Thane (11697) 1st Floor, Keram Building, Plot No.112, Wagle Industrial Estate, Circle No.22, Thane (West) 400 604. Landline No.(Office)-022-25806861, e-mail ID of Branch: sbi.11697@sbi.co.in

SALE NOTICE FOR SALE OF IMMOVABLE PROPERTIES

E-auction Sale Notice for Sale of Immovable Assets under the Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 read with provision to Rule 8 (6) of the Security Interest (Enforcement) Rules, 2002.

Notice is hereby given to the public in general and in particular to the legal heirs of Deceased Borrower(s) / Guarantor(s) that the below described immovable property mortgaged/charged to the Secured Creditor, the Physical Possession of which has been taken by the Authorised Officer of State Bank of India, the Secured Creditor, will be sold on "AS IS WHERE IS AND AS IS WHAT IS" and whatever there is basis on 06.10.2023

Authorised Officer's Details: Name - Chandra Kumar Damodhar Kamble Mobile No. 7875551566, Tel No. (Office) - 022-25806861

Name of Borrower(s)	Outstanding Dues for Recovery of which Property/ies/are Being Sold
Mr Mukesh Khar	Rs 21,46,697.00 (Rupees Twenty One Lakh Forty Six Thousand Six Hundred Ninety Seven Only) as on 05.12.2019 with further interest and incidental expenses, cost from 06.12.2019 (less credits if any) as per Demand notice dated 06.12.2019

Name of Title Deed Holder	Description of Property	Date of e-Auction: 06.10.2023	Date and time for submission of request letter of participation / KYC Documents / Proof of EMD etc. on or before 0
---------------------------	-------------------------	-------------------------------	--